

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2023 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (फाल्गुन 9, 1944)**

**समय 11.00 बजे दिन**

## **1. निधन का उल्लेख.**

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) **श्री ओ.पी. कोहली**, मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल,
- (2) **श्री सखाराम देवकरण पटेल**, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) **श्रीमती नंदा मण्डलोई**, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (4) **श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह**, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (5) **श्री ज्ञानक लाल ठाकुर**, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (6) **श्री राधेश्याम शर्मा**, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (7) **श्री भागवत भाऊ नागपुरे**, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (8) **श्री शरद यादव**, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, तथा
- (9) **श्री शांति भूषण**, पूर्व केन्द्रीय मंत्री.

## **2. प्रश्नोत्तर.**

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## **3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.**

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पटल पर रखेंगे.

**4. दिसम्बर, 2022 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-12 पटल पर रखा जाना.**

**5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

## 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

### 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य**, प्रदेश के विकासखण्ड मुख्यालयों पर बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केन्द्रों को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री भूपेन्द्र मरावी, सदस्य**, जबलपुर एवं रीवा संभाग में ओपन कैप में रखे अनाज के रख रखाव में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 182-बड़वाह से निर्वाचित सदस्य, **श्री सचिन बिरला** को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

### 9. सभापति तालिका की घोषणा.

### 10. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री निलय विनोद डागा, सदस्य**, बैतूल जिले के पटेल वार्ड में डामरीकृत मार्ग की स्वीकृति प्रदान किए जाने,

(2) **श्री विक्रम सिंह, सदस्य**, सतना जिले के ग्राम अहिरगांव एवं कृष्णगढ़ में हायर सेकेन्ड्री स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने,

(3) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य**, ग्वालियर जिले के वार्ड क्र. 56 पारस बिहार कॉलोनी में सीवर लाईन डाले जाने,

(4) **श्री आरिफ अकील, सदस्य**, भोपाल शहर के बाग मुंशी हुसैन खॉ व इमली मस्जिद स्थित बड़े तालाब की दीवार की मरम्मत कराये जाने,

(5) **श्री भूपेन्द्र मरावी, सदस्य**, डिण्डौरी जिले के ग्राम कलगी टोला तिराहा से आमामदेह तक सड़क निर्माण कराये जाने, के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 11. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

**भोपाल :**  
**दिनांक : 27 फरवरी, 2023**

**ए. पी. सिंह**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**